



Date: 30/08/2025

To,  
Corporate Relationship Department,  
BSE Limited,  
P. J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543806  
Scrip Symbol: ITCONS

Dear Sir/Madam,

**Subject: Submission of Notices published in newspapers regarding the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.**

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith copies of the Notices published today in the newspapers ('Financial Express' and 'Jansatta'). The said Notices were published in terms of MCA's General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, inter alia, intimating the public that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means.

We request you to disseminate the above information on your website as you may deem appropriate.

Thank You.

Yours sincerely

**For ITCONS E-Solutions Limited**

**Pooja Gupta**  
**Company Secretary & Compliance Officer**



the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

#### Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised form, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through electronic system will also be available at the AGM ("Insta Poll") and members attending AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

#### Manner of registering/ updating e-mail addresses:

- For shares held in electronic form:** members are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants (DPs) where they maintain their demat accounts.
- For shares held in physical form:** members are requested to register/ update their e-mail addresses by submitting Form ISR-1, Form ISR-2 and Form No. SH-13 (available on the website of the Company at [www.bsil.org.in](http://www.bsil.org.in) or at RTA's at [www.beetalfinancial.com](http://www.beetalfinancial.com)) duly filled and signed along with the requisite supporting documents to M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., Beetal House, 3<sup>rd</sup> Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Complex, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062 or E-mail at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com).

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/ e-voting during the AGM. Please write to the Registrar and Transfer Agent of the Company or undersigned for any assistance.

By order of the Board of Directors

For Bihar Sponge Iron Limited

Sd/-

Vimal Prasad Gupta

Company Secretary & Compliance officer

Date: 29.08.2025

Place: New Delhi

FCS 6380

#### VIVO COLLABORATION SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L72900DL2012PLC230709)

Registered Office: 315, Third Floor, HB Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura North Delhi 110034

Email: [sanjay.mittal@vivo.ooo](mailto:sanjay.mittal@vivo.ooo), Website: [www.vivo.ooo](http://www.vivo.ooo) | Phone: 91-7838651690, NOTICE OF THE 14<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, 25<sup>th</sup> September, 2025 at 03:00 P.M. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of the 14<sup>th</sup> AGM.

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 03/2022 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020, 05<sup>th</sup> May, 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021 and 05<sup>th</sup> May 2022 respectively and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and 15<sup>th</sup> January, 2021, respectively, the Notice of 14<sup>th</sup> AGM and Annual Report 2024-25 have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 29<sup>th</sup> August, 2025. The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. [www.vivo.ooo](http://www.vivo.ooo) and website of the stock exchange i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2), the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.

The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 18<sup>th</sup> September 2025, shall be eligible to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VG/OAVM and cast vote at AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. The remote e-voting period shall commence on Monday 22<sup>nd</sup> September 2025 (09.00 A.M. IST) and end on Wednesday 24<sup>th</sup> September, 2025 (05.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members through remote e-voting, he shall not be permitted to change it subsequently. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled for cast their votes again.

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 18<sup>th</sup> September 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Mr. Sanjeev Dabas, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by sending request mentioning their name, demat account/folio number, email id, mobile number through their registered e-mail to the Company at [cs@vivo.ooo](mailto:cs@vivo.ooo) on or before 22<sup>nd</sup> September, 2025 along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self-attested copy of PAN/ other identity and address proof.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with their Depository Participants.

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact National Securities Depository Limited, 301, 3<sup>rd</sup> Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, at the designated email id: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

For Vivo Collaboration Solutions Limited

Sd/-

Sanjay Mittal

(Managing Director)

DIN: 01710260

Place: New Delhi

Date: 30<sup>th</sup> August, 2025

Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 20<sup>th</sup> September, 2025 to Friday, 26<sup>th</sup> September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 06<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company.

For MAXVOLT ENERGY INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Rajni

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 30.08.2025

Place: New Delhi



#### ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

(Formerly Known as ITCONS E-Solutions Private Limited)

CIN: L72900DL2007PLC163427

Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegance Jasola District Centre, Old Mathura Road, South Delhi, New Delhi-110025 IN

Corporate Office: 3<sup>rd</sup> Floor, B-10, Bajaj Bhawan, Sector-3, Janna Lal Bajaj Marg, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 IN

Tel.: +91-120-4149563 | Email: [cs.pooja@itconsinc.com](mailto:cs.pooja@itconsinc.com) | Website: [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com)

#### NOTICE OF 18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

- NOTICE is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through Video Conference/Other Audio-Visual Means on Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025 at 03:00 p.m. (IST) without physical presence of the Members at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in accordance with General Circular No. 09/2024 dated 19 September 2024 read together with other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PaD-2/P/CIR/2024/133 dated 3<sup>rd</sup> October 2024 extending its earlier relaxations in connection with the conduct of AGM of companies till 30 September 2025.
- In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for financial year 2024-25 has been sent on Friday, 29<sup>th</sup> August 2025 through electronic mode to all shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and the same is also available on the Company's website at [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com) and on the website of the stock Exchange viz. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on NSDL website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). In addition, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing the web-link for accessing the Annual Report for FY 2024-25 is being sent to the members who have not registered their email addresses.
- The Company is pleased to provide its members the facility to exercising their right to vote on the items of business set out in the Notice of AGM by remote e-voting as well as e-voting during the AGM system through platform provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").
- The details regarding cut-off date & e-voting are given here under:
  - Date and time of commencement of remote e-voting: 21.09.2025 (9.00 a.m. IST).
  - Date and time of end of remote e-voting: 23.09.2025 (5.00 p.m. IST).
  - The Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 18.09.2025, may cast their vote electronically.
  - The remote e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 23.09.2025.
  - The Members would be able to cast their votes at the meeting through e-voting facility during AGM if they have not availed the remote e-voting facility. To cast an e-vote during the AGM please refer the instructions mentioned in the AGM Notice. If the vote is cast through a remote e-Voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the general meeting.
  - The Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting.
  - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.
  - Any person who have acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 18<sup>th</sup> September, 2025, may obtain the login ID and password by following the steps as mentioned in the AGM Notice.
  - Manner of voting for members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of AGM, which is also available on the website of the Company at [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com).
- Members attending the AGM through Video Conferencing /Other Audio-Visual Means shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- The Board of Directors have appointed Mrs. Sneha Kashyap, Practicing Company Secretary as the scrutineer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.
- The result of remote e-voting and e-voting at the AGM shall be announced within 2 working days of the AGM of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of NSDL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange.
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 19<sup>th</sup> September, 2025, to Wednesday, 24<sup>th</sup> September, 2025 (both days inclusive) for the Annual General Meeting.
- All queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), under help section or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager - NSDL at 1800 1020 991 or write an email to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
- The members may please note that the Board has recommended the Final Dividend of Rs. 0.15 per equity share of Rs. 10/- each for the FY 2024-25. Members holding shares as on Thursday, 18<sup>th</sup> September 2025 ("Record date") will be eligible for determining entitlement of Members for payment of Final Dividend for the FY 2024-25, if approved at the AGM.
- Members are requested to register/ update their bank details with the Company's RTA/ the respective DPs to receive the dividends, if declared at the AGM, directly into their bank account through approved electronic mode of payment. Detailed information on the above is being provided in the Notice of the AGM. Members are also requested to update their KYC details including latest address and e-mail ids with the Company's RTA/ the respective DPs to receive important updates and notices from time to time.
- As the Members are aware, as per the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended by the Finance Act 2020, dividends paid or distributed by the Company after 01 April 2020, is taxable in the hands of the Members and the Company shall be required to deduct the Tax at Source ("TDS") at the prescribed rates from the dividend. The TDS rates would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company. Communication in this regard, will be made available at the website of the Company at [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com).

For ITCONS E-Solutions Limited

Sd/-

Gaurav Mittal

Managing Director

Place: New Delhi

Date: 29<sup>th</sup> August 2025





## आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड

(पूर्व में आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विहित)

सीआईएन: L72900D12007PLC163427

पंजीकृत कार्यालय: रेगस एलिंग्स स्ट्रोक, एलिंग्स जलोजा डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मधुवा रोड,

दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110025 भारत

निगमित कार्यालय: सुतीय नगर, बी-10, बजाज भवन, सेक्टर-3, जमनालाल बजाज मार्ग, नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 भारत

दूरभाष: +91-120-4149663, ईमेल: cs.pooja@itconsinc.com | वेबसाइट: www.itconsinc.com

## 18वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बही समापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 18वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य दूरस्थ-ग्रन्थ माध्यमों से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा संबंधी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनएसई) द्वारा जारी अन्य परिपत्रों तथा संबंधी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PaD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के साथ पठित, कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संचालन के संबंध में अपनी पूर्व छूट को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने के अनुसार, सदस्यों की नीतिगत उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com), ट्रॉडिक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा एनएसईएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, संबंधी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(डी) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तहत पहुँचने के लिए वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं।

3. कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल डिपॉजिटरीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम प्रणाली के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर प्रस्तुत है।

4. कट-ऑफ तिथि तथा ई-वोटिंग से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) रिपोर्ट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि तथा समय: 21.08.2025 (सुबह 9:00 बजे, आईएसटी)।

ख) रिपोर्ट ई-वोटिंग समापन की तिथि तथा समय: 23.08.2025 (शाम 5:00 बजे, आईएसटी)।

ग) कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18.09.2025 को नीतिगत रूप में या अंगीकृत रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट ई-वोटिंग 23.08.2025 को शाम 5:00 बजे के बाद अनुमत नहीं होगी।

ङ) यदि सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, तो वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट में अपना वोट डाल सकते हैं। वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोट डालने के लिए कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि वोट रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से डाला जाता है, तो सदस्यों को आम बैठक में अपने मतधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

च) सदस्यगण रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट में दोहरा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

छ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वाभिमानी के रिकॉर्ड में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिपोर्ट ई-वोटिंग में आम बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ज) कोई भी व्यक्ति जिसने सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2025 को या उससे पहले शेयर अर्जित किए हैं तथा कंपनी का सदस्य बन गया है, वह वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित अर्थों का पालन करके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

झ) नीतिगत रूप में, वार्षिक रूप में शेयर रखने वाले या कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत न करने वाले सदस्यों के लिए मतदान का तरीका आम बैठक की सूचना में दिया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com) पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य दूरस्थ-ग्रन्थ माध्यमों से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

6. निदेशक महल ने निष्पक्ष तथा वादरही तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्रीमती स्नेहल कश्यप को संबोधित नियुक्त किया है।

7. दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संबंधित रिपोर्ट के साथ, सदस्यों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा संबंधी (एलओआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का परिपत्र तथा शेयर हस्तांतरण बहिर्भाष वार्षिक आम बैठक के लिए शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 से बुधवार 24 सितंबर, 2025 (दोनों दिन समितित) तक बंद रहेगी।

9. ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने तथा ई-वोटिंग के संबंध में सभी प्रश्नों या समस्याओं के लिए, आप प्रायः पुछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं जो [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर साधनता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं या श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक - एनएसडीएल से 1800 1020 991 पर संपर्क करें या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर ईमेल लिखें।

10. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि बीकॉड नो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.15 रुपये का अंतिम लाभार्थी देने की सिकांशिका की है। गुस्सा 18 सितंबर 2025 (रिपोर्ट दिनांक) तक शेयर रखने वाले सदस्य, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित हो जाते हैं, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभार्थी के भुगतान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए पात्र होंगे।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभार्थी प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो भुगतान के अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सौंपे अपने बैंक खाते में कंपनी के आर्टीए/संबंधित डीपी के साथ अपने बैंक विवरण पंजीकृत/पडेटे करें। उपरोक्त पर विस्तृत जानकारी वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी जा रही है। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे समय-समय पर महत्वपूर्ण अपडेट तथा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी के आर्टीए/संबंधित डीपी के साथ अपने नवीनतम पते तथा ई-मेल आईडी सहित अपने कोआईडी विवरण अपडेट करें।


12. जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, वित्त अधिनियम 2020 द्वारा संशोधित आय कर अधिनियम, 1961 (आईटी ऑ. विनियम) के अनुसार, 01 अप्रैल 2020 के बाद कंपनी द्वारा जारी तथा वितरित लाभार्थी, सदस्यों के हस्तों में कर योग्य होगा तथा कंपनी को लाभार्थी से निर्धारित दरों पर छोट पर कर (टीडीबी) काटना होगा। टीडीबी दरें सदस्यों की आयवर्षी स्थिति तथा उनके द्वारा समय पर प्रस्तुत तथा कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होंगी। इस संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.itconsinc.com](http://www.itconsinc.com) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कृते आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड

हस्ता/

गौरव तिलक

प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29 अगस्त 2025ASSET  
RECONSTRUCTION

बी लिमिटेड, रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड, कलिताना, मुंबई 400098 और  
1, विडसर लेन, कोलिवेरी विलेज, एमएमआरबी क्षेत्र, कलिताना, सैटाक्रज पूर्व, मुंबई-400098

## डिमांड नोटिस

वित्तिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम),  
की धारा 13(2) के तहत सूचना

दिया जाता है, जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके ऋण  
ए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। असाईनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 29 दिसंबर, 2021 के माध्यम से एडलवाइस एसेट  
420 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए) द्वारा उन्हें वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा  
(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उनसे संपूर्ण बकाया चुकाने की मांग के नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि,  
कार उन्होंने इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

बंधककर्ताओं	एनपीए की तिथि	13(2) की तिथि	बकाया राशि/ देय राशि
1. माध्यम से: श्री अनिरुद्ध खंडेलवाल, जी कोलीनी, सीकर हाउस, जयपुर- धारकर्ता) पुत्र श्री सुरेश चंद्र गुप्ता निवासी 12, मारुति कॉलोनी, दादी का 13. श्री सुरेश चंद्र गुप्ता (सह-धारकर्ता) पुत्र श्री दुर्गा लाल गुप्ता निवासी ड, झोटावाड़ा, जयपुर-302012, राजस्थान। 4. श्रीमती भारती गुप्ता (सह- र 12, मारुति कॉलोनी, दादी का फाटक, बेनार रोड, झोटावाड़ा, जयपुर-	06.09.2021	21.08.2025	04.08.2025 को रु. 1,07,04,198.62 (रुपए एक करोड़ सात लाख चार हजार एक सौ अठानवें तथा बासठ पैसे मात्र) और अनुबंधीय दर पर ब्याज प्रभावी 05.08.2025 और इस नोटिस के जारी होने के बाद किए गए कोई अन्य खर्च/लागत

## प्रतिभूति परिसंपत्ति का विवरण:

1. जेतवाड़ा, जयपुर-302012 राजस्थान, दिनांक 14.06.2016 के विक्रय विलेख के अनुसार (संबंधित उप-पंजीकृत-  
ज या 152 वर्ग मीटर, आच्छादित क्षेत्रफल: 309 वर्ग फीट, प्रकार: आवासीय, सीमा इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट संख्या  
भूमि। स्वामी: श्रीमती भारती गुप्ता।

प्रकटकर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के  
की धारा 13 उप-धारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

प्राधिकृत अधिकारी

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  
(एडलवाइस एआरसी ट्रस्ट- 420 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

## नॉटिफिकेशन लिमिटेड

नो. 03 मंजिल, सेक्टर-44, ईस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,  
डिगड, बेगुन, केकरी, बीवर, अजमेर

अचल सम्पत्ति हेतु  
कब्जा सूचना

नॉटिफिकेशन के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आसक्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन  
त (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के नियम 3 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में,  
उल्लिखित तारीखों को एक मास सूचना जारी की, जिसमें कर्जदार तथा संपत्ति के स्वामी/जमातदार को उक्त सूचना  
। जबकि संपत्ति के स्वामी तथा आम, राशि वापस करने में विफल रहे हैं, नीचे उल्लिखित कर्जदारों तथा आम  
धिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समुच्च उल्लिखित तिथियों  
चियों पर कब्जा कर लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जमात को इस संपत्तियों के साथ कोई  
चियों के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत, आदि के लिए इंडिया शेल्टर

प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का समस्त भाग)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जे की तिथि
148/ 60, आराजी नं.-984/209, ग्राम-जम्बर, थाना हसीतल- बदनीर, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान। आ समस्त भाग सीमा:- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम- विरिया की भूमि, उत्तर-नामपरसंड/मंगू कुम्हार की - सुगनी/कालू कुम्हार की भूमि	मांग सूचना 12.05.2025 र. 1571924/- (रुपए पंद्रह लाख इकहतर हजार नौ सौ चौबीस मात्र) 10.05.2025 तक देय, साथ में 11.05.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत।	25.08.2025
5-16, बही संख्या 206, ग्राम-गोरधनपुरा, ग्राम भागर, पंचायत समिति- सरवाड़, जिला- अजमेर 25412 के समस्त भाग। सीमाएं- पूर्व-विरासत पुत्र पर, पश्चिम-कौमिन रोड और जयदीरा का घर, रोड, दक्षिण-जीवन पुत्र अमर का घर	मांग सूचना 12.05.2025 र. 1326340/- (रुपए तेरह लाख छब्बीस हजार तीन सौ चालीस मात्र) 10.05.2025 तक देय, साथ में 11.05.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत।	26.08.2025
5, बही संख्या 178, संकल्प संख्या 03, मिसल आ समस्त भाग, ग्राम छजवो का खेड़ा, जीपी नॉल मांडल, जिला भीलवाड़ा राजस्थान - आम संकल्प, पश्चिम-सरवाड़/बोना कुमावत, नारायण बलाई, दक्षिण-प्रकाश/नारायण बलाई।	मांग सूचना 12.05.2025 र. 677626/- (रुपए छह लाख सतहतर हजार छह सौ छब्बीस मात्र) 10.05.2025 तक देय, 11.05.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत सहित।	25.08.2025
1, खसरा संख्या 1559, ग्रा. एवं ग्राम पंचायत लिकसाभा- मसुदा, थाना- मसुदा, जिला- अजमेर, 5202 का समस्त भाग। कुल क्षेत्रफल 2653 वर्ग - पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम- असीरफा बड़े जमात, त रास्ता, उत्तर- सुधान/करीमा का घर	मांग सूचना 12.06.2025 र.2231241/- (रुपए बाईस लाख इकतीस हजार दो सौ इकतालीस मात्र) 10.06.2025 तक देय, 11.06.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत सहित।	26.08.2025
मिसल संख्या 44, संकल्प संख्या 01, गौध- पंचायत- मोतीपुर, जिला- भीलवाड़ा, 204 का समस्त भाग कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट श्री लाड पुत्र श्री मांगी लाल जाट का मकान, पुत्र श्री यन्ना जाट का मकान, उत्तर- स्वयं की आम रास्ता	मांग सूचना 12.05.2025 र. 736324/- (रुपए सात लाख छत्तीस हजार तीन सौ चौबीस मात्र) 10.05.2025 तक देय, साथ में 11.05.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य प्रभार एवं लागत।	25.08.2025
000005055180		
बही-17, मिसल संख्या 30/2017 निवासी आमपंचायत- बगड हसीतल रिवाज बारी	मांग सूचना 12.06.2025 र. 600751/-	26.08.2025